

# Lev

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
עֲלֵיָהּ וַיִּצַק קָרְבָּנוֹ יְהִיָּה סֹלֶת לֵיהֹוָה מִנְחָה קָרְבָּן תִּקְרִיב כִּי- וַיִּנְפֹּשׂ  
उस-पर और-उंडेले भेंट-उसकी हो मैदा यहोवा-को अन्नबलि भेंट चढ़ाए जब और-प्राण  
H3332 H1961 H5560 H3068 H4503 H7126 H5315

לִבְנָהּ: עֲלֵיָהּ וַיִּתֵּן וַיִּשְׂמוּ  
लोबान उस-पर और-दे तेल  
H3828 H5414 H8081

“जब कोई व्यक्ति यहोवा को अन्नबलि चढ़ाये तो उसकी भेंट महीन आटे की होनी चाहिए। वह व्यक्ति उस आटे पर तेल डाले और उस पर लोबान रखे।

2  
מִסֹּלֶתָהּ מֵדֵ-וּסְכֵּה מִמֶּנּוּ קָמְצוֹ מִלֵּאֵי בְּרִי-וַיִּתֵּן וַיִּשְׂמוּ  
मैदे-उसके-से मुट्टी-अपनी भरी वहां-से और-मुट्टी-भरे याजकों हाारून-के पुत्रों पर और-लाए-उसे  
H5560 H7062 H4393 H8033 H7061 H3548 H0175 H0413 H0935

הַמִּזְבֵּחַ הָאֲזָכָרָה אֶת- הַכֹּהֵן וְהַקְטִיר לְבִנְתָּהּ כָּל- עַל- וּמִשְׁמַנָּהּ  
वेदी-पर स्मरण-अंश-उसका को याजक और-जलाए लोबान-उसके सब पर और-तेल-उसके-से  
H4196 H0234 H0853 H3548 H3828 H3605 H8081

לֵיהֹוָה: לֵיהֹוָה גִּיחָח רִיחַ אֲשָׁה  
यहोवा-को सुखदायक सुगंध अग्निबलि  
H3068 H5207 H7381 H0801

तब वह इसे हाारून के याजक पुत्रों के पास लाए। वह व्यक्ति तेल और लोबान से मिला हुआ एक मुट्टी महीन आटा ले तब योजक वेदी पर स्मृतिभेंट के रूप में आटे को आग में जलाए। यह यहोवा के लिये सुगन्ध होगी

3  
יְהוָה: מִאֲשֵׁי מִשְׁפָּחֵי קָדְשִׁים קָדֹשׁ וּלְבַבְּנוֹ לְאֹהֲרָן מִן- הַמִּנְחָה מִן- וַתִּגְוַתְרֵת  
यहोवा-की अग्निबलियों-से पवित्रों-का पवित्र और-पुत्रों-उसके-लिए हाारून-के-लिए अन्नबलि में-से और-बचा-हुआ  
H3068 H0801 H6944 H6944 H0175 H4503 H3498

ו

और बची हुई अन्नबलि हाारून और उसके पुत्रों के लिए होगी। यह भेंट यहोवा को आग से दी जाने वाली भेंटों में सबसे अधिक पवित्र होगी।

4  
בְּשֶׁמֶן בְּלוֹלָת מִצֵּת חֲלוֹת סֹלֶת תַּגּוּר מִאֲפֶה מִנְחָה קָרְבָּן וְכִי-  
तेल-में मिली-हुई अखमीरी रोटियां मैदा तन्दूर-में पकी-हुई अन्नबलि भेंट चढ़ाते और-जब  
H8081 H4682 H2471 H5560 H8574 H3989 H4503 H7126

וּרְקִיקֵי מִצֵּת מִשְׁחִים בְּשֶׁמֶן: —  
और-पतली-रोटियां अखमीरी-की चुपड़ी-हुई अखमीरी-की तेल-में  
H8081 H4886 H4682 H7550

“जब तुम चूल्हे में पकी अन्नबलि लाओ तो यह अखमीरी मैदे के फुलके या ऊपर से तेल डाली हुई अखमीरी चपातियाँ होनी चाहिए।

5  
תְּהִיָּה: מִצֵּה בְּשֶׁמֶן בְּלוֹלָה סֹלֶת קָרְבָּנוֹת עַל- מִנְחָה וְאִם-  
हो अखमीरी तेल-में मिली-हुई मैदा भेंट-तेरी तवे पर अन्नबलि और-यदि  
H1961 H4682 H8081 H5560 H4227 H4503

यदि तुम भूनने की कड़ाही से अन्नबलि लाते हो तो यह तेल मिली अखमीरी महीन आटे की होनी चाहिए।

6	פְּתוֹת	אֶתָּה	פְּתוּיִם	וַיִּצְקֶה	עָלֶיהָ	שָׁמֶן	מִנְחָה	הוּא:	ס
	तोड़	उसे	टुकड़ों-में	और-उंडेल	उस-पर	तेल	अन्नबलि	यह	—
	<a href="#">H6626</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3332</a>		<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H1931</a>	

तुम्हें इसे कई टुकड़े करके कई भागों में बाँटना चाहिए और इन पर तेल डालना चाहिए। यह अन्नबलि है।

7	וְאִם-	מִנְחָת	מִרְחֶשֶׁת	קִרְבָּנָהּ	סֶלֶת	בְּשֶׁמֶן	תַּעֲשֶׂה:		
	और-यदि	अन्नबलि	कड़ाही	भेंट-तेरी	मैदा	तेल-में	बनाई-जाए		
		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H4802</a>		<a href="#">H5560</a>	<a href="#">H8081</a>			

यदि तुम अन्नबलि तलने की कड़ाही से लाते हो तो यह तेल मिले महीन आटे की होनी चाहिए।

8	וְהִבֵּאתָ	אֶת-	הַמִּנְחָה	אֲשֶׁר	יַעֲשֶׂה	מֵאֲלֶהָ	לִיהוָה	וְהִקְרִיבָהּ	אֶל-	הַכֹּהֵן	וְהִגִּישָׁהּ
	और-ला	को	अन्नबलि	जो	बनाई-जाए	इन-से	यहोवा-को	और-चढ़ा-उसे	पर	याजक	और-ला-उसे
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4503</a>			<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H5066</a>

אֶל-  
הַמִּזְבֵּחַ:  
वेदी  
पर  
[H4196](#) [H0413](#)

“तुम इन चीजों से बनी अन्नबलि यहोवा के लिये लाओगे। तुम उन चीजों को याजक के पास ले जाओगे और वह उन्हें वेदी पर रखेगा।

9	וְהָרִים	הַכֹּהֵן	מִן-	הַמִּנְחָה	אֶת-	אֲזָכְרָתָהּ	וְהִקְטִיר	הַמִּזְבֵּחַ	אֲשֶׁה	רִיחַ
	और-उठाए	याजक	में-से	अन्नबलि	को	स्मरण-अंश-उसका	और-जलाए	वेदी-पर	अग्निबलि	सुगंध
		<a href="#">H3548</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0234</a>		<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>

לִיהוָה:  
यहोवा-को  
सुखदायक  
[H3068](#) [H5207](#)

फिर उस अन्नबलि में से याजक इसका कुछ भाग लेकर उसे स्मृति भेंट के रूप में वेदी पर जलायेगा। यह आग द्वारा दी गई एक भेंट है। इस की सुगंध से यहोवा प्रसन्न होता है।

10	וְהִנּוּחָתָהּ	מִן-	הַמִּנְחָה	לְהָרִין	וּלְבָנָיו	קִרְשׁ	קִרְשִׁים	מֵאֲשֵׁי	יְהוָה:
	और-बचा-हुआ	में-से	अन्नबलि	हारून-के-लिए	और-पुत्रों-उसके-लिए	पवित्र	पवित्रों-का	अग्निबलियों-से	यहोवा-की
	<a href="#">H3498</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H0175</a>		<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H3068</a>

बची हुई अन्नबलि हारून और उसके पुत्रों की होगी। यह भेंट यहोवा को आग से चढ़ाई जाने वाली भेंटों में अति पवित्र होगी।

11	כָּל-	הַמִּנְחָה	אֲשֶׁר	תִּקְרִיבוּ	לִיהוָה	לֹא	תַעֲשֶׂה	חֲמִץ	כִּי	כָּל-	שָׂאֵר	וְכֹל-
	सब	अन्नबलि	जो	चढ़ाओ	यहोवा-को	नहीं	बनाई-जाए	खमीरी	क्योंकि	सब	खमीर	और-सब
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4503</a>		<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3808</a>				<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7603</a>	<a href="#">H3605</a>

רֶבֶשׁ  
शहद  
לֹא-  
नहीं  
תִּקְטְרוּ  
जलाओ  
מִמֶּנּוּ  
उस-में-से  
אֲשֶׁה  
अग्निबलि  
לִיהוָה:  
यहोवा-को  
[H3068](#) [H0801](#) [H3808](#) [H1706](#)

“तुम्हें यहोवा को खमीर वाली कोई अन्नबलि नहीं चढ़ानी चाहिए। तुम्हें यहोवा को, आग द्वारा भेंट के रूप में खमीर या शहद नहीं जलाना चाहिए।

12	קִרְבֵּן	רֵאשִׁית	תִּקְרִיבוּ	אֵתָּם	לִיהוָה	וְאֶל-	הַמִּזְבֵּחַ	יַעֲלוּ	לְרִיחַ	גִּיהוָה:
	भेंट	पहले-फल	चढ़ाओ	उन्हें	यहोवा-को	और-पर	वेदी	चढ़ाएं	सुगंध-के-लिए	सुखदायक
		<a href="#">H7225</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H5207</a>

तुम पहली फ़सल से तैयाह की गई खमीर और शहद मधुर गन्ध के रूप में ऊपर जाने के लिए वेदी पर जलाने नहीं चाहिए।

13	וְכֹל-	קִרְבֵּן	מִנְחָתָהּ	בְּמִלַּח	תִּמְלַח	וְלֹא	תִּשְׁבִּית	מִלַּח	בְּרִית	אֶלְהֵיךָ	מֵעַל
	और-सब	भेंट	अन्नबलि-तेरी	नमक-से	नमकीन-कर	और-नहीं	रोक	नमक	वाचा	परमेश्वर-तेरे	से-उपर
	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H4417</a>		<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H4417</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0430</a>	

עַל  
पर  
כָּל-  
सब  
קִרְבָּנָהּ  
भेंट-तेरी  
תִּקְרִיב  
चढ़ा  
מִלַּח:  
नमक  
ס  
—  
[H4417](#) [H7126](#) [H3605](#) [H4503](#)

तुम्हें अपनी लायी हुई हर एक अन्नबलि पर नमक भी रखना चाहिए। यहोवा से तुम्हारे वाचा के प्रतीक रूप, नमक का अभाव तुम्हारी किसी अन्नबलि में नहीं होना चाहिए। तुम्हें अनपी सभी भेटों के साथ नमक लाना चाहिए।

תְּקָרִיב	כִּרְמָל	נֹרֶשׁ	בְּאֵשׁ	קָלִי	אֲבִיב	לֵיהוָה	בְּפִרְיִם	מִנְחָת	תְּקָרִיב	וְאִם־	14
चढ़ा	बालों	दली-हुई	आग-में	भुने-हुए	हरे	यहोवा-को	पहले-फलों	अन्नबलि	चढ़ाते	और-यदि	
<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3759</a>	<a href="#">H1643</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H7033</a>	<a href="#">H0024</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1061</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H7126</a>		

בְּפִרְיִם: מִנְחָת אֵת  
पहले-फलों-तेरी अन्नबलि को  
[H1061](#) [H4503](#) [H0853](#)

“यदि तुम पहली फ़सल से यहोवा को अन्नबलि लाते हो तो तुम्हें भुनी हुई अन्न की बालें लानी चाहिए। इस अन्न को दलकर छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना चाहिए। इस पहली फसल से तुम्हारी अन्नबलि होगी।

הוּא:	מִנְחָה	לְבָנָה	עֲלֶיהָ	וְשָׂמָהּ	שֶׁמֶן	עֲלֶיהָ	וְנָתַתְּ	15
यह	अन्नबलि	लोबान	उस-पर	और-रख	तेल	उस-पर	और-दे	
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H3828</a>			<a href="#">H8081</a>		<a href="#">H5414</a>	

तुम्हें इस पर तेल डालना और लोबान रखना चाहिए। यह अन्नबलि है।

לְבַנְתָּהּ	כָּל־	עַל	וּמִשְׁמֶנָּהּ	מִגְרָשָׁהּ	אֲזַכְרֶתָּהּ	אֶת־	הַכֹּהֵן	וְהַקָּטִיר	16
लोबान-उसके	सब	पर	और-तेल-उसके-से	दली-उसकी-से	स्मरण-अंश-उसका	को	याजक	और-जलाए	
<a href="#">H3828</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H1643</a>	<a href="#">H0234</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3548</a>		

פּ: לֵיהוָה: אֵשׁ  
— यहोवा-को अग्निबलि  
[H3068](#) [H0801](#)

याजक को चाहिए कि वह स्मृति भेंटके रूप में दले गए अन्न के कुछ भाग, तेल और इस पर रखे पूरे लोबान को जलाए। यह यहोवा को आग से चढ़ाई भेंट है।